



Certificate No. 3373

THANE MUNICIPAL CORPORATION, THANE

Regulation (Registration) No. 3 & 4 न 9

SANCTION OF DEVELOPMENT

APPROVED PERMISSION / COMMENCEMENT CERTIFICATE

इमारत क्र. १ : लोअर ग्राऊंड + अपर ग्राऊंड + अपर फ्लॉट + १ ते २३ मजले. इमारत क्र. २ : लोअर ग्राऊंड + अपर ग्राऊंड + अपर फ्लॉट + १ ते २३ मजले. इमारत क्र. ३ : लोअर ग्राऊंड + अपर ग्राऊंड + अपर फ्लॉट + १ ते २३ मजले. इमारत क्र. ४ : लोअर ग्राऊंड + अपर ग्राऊंड + अपर फ्लॉट + १ ते २३ मजले. इमारत क्र. ५ : लोअर ग्राऊंड + अपर ग्राऊंड + अपर फ्लॉट + १ ते २३ मजले. इमारत क्र. ६ : लोअर ग्राऊंड + अपर ग्राऊंड + अपर फ्लॉट + १ ते २३ मजले. इमारत क्र. ७ : लोअर ग्राऊंड + अपर ग्राऊंड + अपर फ्लॉट + १ ते २३ मजले. इमारत क्र. ८ : लोअर ग्राऊंड + अपर ग्राऊंड + अपर फ्लॉट + १ ते २३ मजले. इमारत क्र. ९ : लोअर ग्राऊंड + अपर ग्राऊंड + अपर फ्लॉट + १ ते २३ मजले. इमारत क्र. १० : लोअर ग्राऊंड + अपर ग्राऊंड + अपर फ्लॉट + १ ते २३ मजले. इमारत क्र. ११ : लोअर ग्राऊंड + अपर ग्राऊंड + अपर फ्लॉट + १ ते २३ मजले. इमारत क्र. १२ : लोअर ग्राऊंड + अपर ग्राऊंड + अपर फ्लॉट + १ ते २३ मजले. इमारत क्र. १३ : लोअर ग्राऊंड + अपर ग्राऊंड + अपर फ्लॉट + १ ते २३ मजले. इमारत क्र. १४ : लोअर ग्राऊंड + अपर ग्राऊंड + अपर फ्लॉट + १ ते २३ मजले. इमारत क्र. १५ : लोअर ग्राऊंड + अपर ग्राऊंड + अपर फ्लॉट + १ ते २३ मजले. इमारत क्र. १६ : लोअर ग्राऊंड + अपर ग्राऊंड + अपर फ्लॉट + १ ते २३ मजले. इमारत क्र. १७ : लोअर ग्राऊंड + अपर ग्राऊंड + अपर फ्लॉट + १ ते २३ मजले. इमारत क्र. १८ : लोअर ग्राऊंड + अपर ग्राऊंड + अपर फ्लॉट + १ ते २३ मजले. इमारत क्र. १९ : लोअर ग्राऊंड + अपर ग्राऊंड + अपर फ्लॉट + १ ते २३ मजले. इमारत क्र. २० : लोअर ग्राऊंड + अपर ग्राऊंड + अपर फ्लॉट + १ ते २३ मजले. इमारत क्र. २१ : लोअर ग्राऊंड + अपर ग्राऊंड + अपर फ्लॉट + १ ते २३ मजले. इमारत क्र. २२ : लोअर ग्राऊंड + अपर ग्राऊंड + अपर फ्लॉट + १ ते २३ मजले. इमारत क्र. २३ : लोअर ग्राऊंड + अपर ग्राऊंड + अपर फ्लॉट + १ ते २३ मजले. इमारत क्र. २४ : लोअर ग्राऊंड + अपर ग्राऊंड + अपर फ्लॉट + १ ते २३ मजले. इमारत क्र. २५ : लोअर ग्राऊंड + अपर ग्राऊंड + अपर फ्लॉट + १ ते २३ मजले. इमारत क्र. २६ : लोअर ग्राऊंड + अपर ग्राऊंड + अपर फ्लॉट + १ ते २३ मजले. इमारत क्र. २७ : लोअर ग्राऊंड + अपर ग्राऊंड + अपर फ्लॉट + १ ते २३ मजले. इमारत क्र. २८ : लोअर ग्राऊंड + अपर ग्राऊंड + अपर फ्लॉट + १ ते २३ मजले. इमारत क्र. २९ : लोअर ग्राऊंड + अपर ग्राऊंड + अपर फ्लॉट + १ ते २३ मजले. इमारत क्र. ३० : लोअर ग्राऊंड + अपर ग्राऊंड + अपर फ्लॉट + १ ते २३ मजले.



V.P. No. S05/0079/14 TMC/TDD / 2152/17 Date: 13/04/2017
 To: Shri / Smt. C. फोल्डस आर्किटेक्ट्स अण्ड कन्सल्टंट्स (Architect)


श्री. एन. बरजोरजी व इतर ३ (मालक) श्री. सुरेश डी. जैन (कु.मु.)
 श्री. एन. बरजोरजी व इतर ३ (मालक) श्री. सुरेश डी. जैन (कु.मु.)
 श्री. एन. बरजोरजी व इतर ३ (मालक) श्री. सुरेश डी. जैन (कु.मु.)

With reference to your application No. १०७८० dated २४/११/२०१६ for development permission / grant of Commencement certificate under section 45 & 69 of the the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 to carry out development work and or to erect building No. वरील प्रमाणे in village विलीन Sector No. ५ Situated at Road / Street खादील प्रमाणे S. No. / C.S.T. No. / E.P. No. खादील प्रमाणे

The development permission / the commencement certificate is granted subject to the following conditions.

- 1) The land vacated in consequence of the enforcement of the set back line shall be used for the public street.
- 2) No new building or part thereof shall be erected or allowed to be occupied or be used by any person until occupancy permission has been granted.
- 3) The development permission / Commencement Certificate shall remain valid for a period of one year Commencing from the date of its issue.
- 4) This permission does not entitle you to develop the land which does not vest in you.

टोल न १
 दस्ता नं. २२४४
 २०१६



- स.क्र. ८५/१ब, ८५/१क, ८६/१/१ब, ८६/१/१क, ८७/१/१ब, ८७/१/१क, ८७/१/१क, ८७/१/१क, ९६/४ब, ९६/४क, ९६/५ब, ९६/५क व स.क्र. ९०.
- ५) कामपा/अधिवृत्ति/१८१२/१६ दि. २०/०५/२०१६ रोजीच्या सी.सी. मधील संबंधित अटी आपणांवर बंधनकारक राहतील.
 - ६) प्रशासनांतर्गत नियोजित इमारतीमधील सदनिकाधारवांशी करावयाच्या करारनाम्यामध्ये विकासक यांनी १.०० मी. रुंद अंतर्गत रस्ता हा सार्वजनिक वापरासाठी राहिल या अटीचा समावेश करणे आवश्यक.
 - ७) नग्यापूर्वी अग्निशमन विभागाकडील सुधारित नाहरकत दाखला सादर करणे आवश्यक.

PLEASE NOTE THAT THE DEVELOPMENT IN CONTRAVENTION OF THE APPROVED PLANS AMOUNTS TO COGNASIBLE OFFENCE PUNISHABLE UNDER THE MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966